



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



71] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2001/फाल्गुन 22, 1922
71] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2001/PHALGUNA 22, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2001

सं. 61 (आर ई-2000)/1997-2002

फा. सं. 01/91/162/33/ए एम 01/पी सी-3.—समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात मद 1997-2002 की आई टी सी एच एस) वर्गीकरण नामक पुस्तक (31 अगस्त, 1998 तक के संशोधन शामिल) की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-1 की क्रम संख्या 12(ii) और अनुसूची 2 की तालिका ख में कोड सं. 1001(ख) की प्रविष्टि जिस में उल्लिखित मदों की निर्यात शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया है, कि ओर ध्यान कर्षित किया जाता है।

2. समय-समय पर यथा संशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 (31 मार्च, 2000 तक के संशोधन शामिल) के पैराग्राफ 4.11 अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार लाइसेंसिंग वर्ष 2000-2001 के दौरान मोटे अनाज के निर्यात पर मात्रात्मक मा को आगे इस प्रकार विनिर्दिष्ट करते हैं :—

मोटे अनाज अर्थात् "जौ, मक्का, बाजरा, रागी और ज्वार (जिसमें खरीफ के रूप उगाए जाने वाला हाई ब्रिड ज्वार शामिल नहीं है) का दाना और आटे" के 50,000 मी. टन (पचास हजार मी. टन) की और मात्रा के निर्यात अनुमति दी जाती है। यह मात्रा, निम्नलिखित एजेंसियों को उनके सामने उल्लिखित मात्रा के लिए पंजीकरण और आवंटन प्रमाण पत्र (आर सी ए सी) जारी करने हेतु एपीडा को सौंपी गई है :—

(क) एस टी सी	:	10,000 मी. टन
(ख) एस टी सी एल, बंगलोर	:	10,000 मी. टन
(ग) निर्यातकों के लिए एपीडा	:	30,000 मी. टन

3. उपर्युक्त का पोत लदान/निर्यात की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2001 होगी।

4. इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th March, 2001

NO. 61 (RE-2000)/1997—2002

F. No. 01/91/162/33/AM01/PC.III.—Attention is invited to the entry at Code No. 1001(b) in Table B of Schedule 2 and Sl. No. 12(ii) of Appendix—I to Schedule 2 in the book titled “ITC(HS) Classifications of Export and Import Items, 1997—2002” (incorporating amendments made upto 31st August, 1998) and as amended from time to time specifying the terms and conditions for export of items indicated therein.

2. In exercise of the powers conferred under Para 4.11 of the Export & Import Policy, 1997—2002, (incorporating amendments made upto 31st March, 2000) and as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade further specifies the quantitative ceiling on export of Coarse grains for the licensing year 2000-2001 as under :—

A further quantity of 50,000MTs (Fifty thousand MTs) of Coarse grains viz. “Grain and flour of Barley, Maize, Bajra, Ragi and Jowar (excluding Hybrid Jowar grown as Kharif crop)” is permitted to be exported. This quantity is placed at the disposal of APEDA for issue of Registration-cum-Allocation Certificate (RCACs) to the following agencies as indicated against each :—

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| (a) STC | : | 10,000 MTs |
| (b) STCL, Bangalore | : | 10,000 MTs |
| (c) APEDA for exporters | : | 30,000 MTs |

3. The last date of shipment/export for the above shall be 30-4-2001.

4. This issues in Public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade